



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 293]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 11, 1982/आश्विन 19, 1904

No. 293]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 11, 1982/ASVINA 19, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त संश्लेष

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 1982

सां. कां० नि० 593(ख) —सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और  
स्वर्ण (नियंत्रण) कठिनाइयाँ दूर करना आदेश, 1982

केन्द्रीय सरकार, वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1980 (1980  
का 44) की धारा 50 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का  
प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-  
शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) कठिनाइयाँ दूर करना आदेश, 1982 है।

(2) यह 11 अक्टूबर, 1982 से प्रवृत्त होगा।

2. (क) अधिनियम की धारा 128 के अधीन, जैसी वह नियत  
दिन के ठीक पहले थी, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड या  
सीमा शुल्क अपील कलक्टर द्वारा, या

(ख) अधिनियम की धारा 130 के अधीन, जैसी वह नियत दिन  
के ठीक पहले थी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड या सीमा  
शुल्क कलक्टर द्वारा,

उस तारीख से पहले पारित आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करने  
की अवधि, अधिनियम की धारा 129क की उपधारा (5) के उपबन्धों

पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस तारीख से, जिसको आदेश, यथा-  
स्थिति, सीमाशुल्क कलक्टर या अपील करने वाले अन्य पक्षकार को  
संसूचित किया जाता है, छह मास होगी।

स्पष्टीकरण —इस रूप में—

(i) "अधिनियम" से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का  
52) अभिप्रेत है;

(ii) "नियत दिन" से वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1980  
(1980 का 44) की पाँचवीं अनुसूची के भाग I में विनि-  
श्चित इस अधिनियम के संशोधनों के प्रवृत्त होने की तारीख  
अभिप्रेत है।

3 (क) अधिनियम की धारा 35 के अधीन, जैसी वह नियत दिन  
के ठीक पहले थी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड या केन्द्रीय  
उत्पाद शुल्क अपील कलक्टर द्वारा; या

(ख) अधिनियम की धारा 35क के अधीन, जैसी वह नियत दिन  
के ठीक पहले थी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड या केन्द्रीय  
उत्पाद शुल्क कलक्टर द्वारा,

उस तारीख से पहले पारित आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करने  
की अवधि, अधिनियम की धारा 35ख की उपधारा (5) के उपबन्धों  
पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस तारीख से, जिसको आदेश, यथा-  
स्थिति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर या अपील करने वाले अन्य पक्ष-  
कार को संसूचित किया जाता है, छह मास होगी।

स्पष्टीकरण :—इस पैरा में—

- (i) "अधिनियम" से सीमा शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) अभिप्रेत है;
- (ii) "नियत दिन" से वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1980 (1980 का 44) की पांचवीं अनुसूची के भाग II में विनिर्दिष्ट, इस अधिनियम के संशोधनों के प्रवृत्त होने की तारीख अभिप्रेत है।

4. (क) अधिनियम की धारा 80 के अधीन, जैसी वह नियत दिन के ठीक पहले थी, प्रशासक, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क या सीमा शुल्क कलेक्टर या सीमा शुल्क अपील कलेक्टर द्वारा;

(ख) अधिनियम की धारा 81 के अधीन, जैसी वह नियत दिन के ठीक पहले थी, प्रशासक द्वारा;

उस तारीख से पहले पारित आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करने की अवधि, अधिनियम की धारा 81 की उपधारा (5) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस तारीख से जिसको आदेश, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क कलेक्टर या अपील करने वाले अन्य पक्षकार को संसूचित किया जाता है, छह मास होगी।

स्पष्टीकरण :—इस पैरा में—

- (i) "अधिनियम" से स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) अभिप्रेत है;
- (ii) "नियत दिन" से वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1980 (1980 का 44) की पांचवीं अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट, इस अधिनियम के संशोधनों के प्रवृत्त होने की तारीख अभिप्रेत है।

[फा० सं० 341/10/82-टी०प्र०सू०]  
आर०के० चक्रवर्ती,  
उप सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 1982

**G.S.R. 593(E).**—The Customs, Central Excise and Gold (Control) Removal of Difficulties Order, 1982:—

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 50 of the Finance (No. 2) Act, 1980 (44 of 1980), the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. (1) This order may be called the Customs, Central Excise and Gold (Control) Removal of Difficulties Order, 1982.

(2) It shall come into force on the 11th day of October, 1982.

2. The period within which an appeal against any order passed before the appointed day, by—

- (a) the Central Board of Excise and Customs or the Appellate Collector of Customs under section 128

of the Act, as it stood immediately before that day; or

- (b) the Central Board of Excise and Customs or the Collector of Customs under section 130 of the Act, as it stood immediately before that day,

may be filed, shall, without prejudice to the provisions of sub-section (5) of section 129A of the Act, be six months from the date on which the said order is communicated to the Collector of Customs, or, as the case may be, the other party preferring the appeal.

Explanation: In this paragraph—

- (i) "Act" means the Customs Act, 1962 (52 of 1962),
- (ii) "Appointed day" means the date of coming into force of the amendments to the Act specified in Part I of the Fifth Schedule to the Finance (No. 2) Act, 1980 (44 of 1980).

3. The period within which an appeal against any order passed before the appointed day, by—

- (a) the Central Board of Excise and Customs or the Appellate Collector of Central Excise under section 35 of the Act, as it stood immediately before that day; or
- (b) the Central Board of Excise and Customs or the Collector of Central Excise under section 35A of the Act, as it stood immediately before that day,

may be filed, shall, without prejudice to the provisions of sub-section (5) of section 35B of the Act, be six months from the date on which the said order is communicated to the Collector of Central Excise, or, as the case may be, the other party preferring the appeal.

Explanation.—In this paragraph—

- (i) "Act" means the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944);
- (ii) "appointed day" means the date of coming into force of the amendments to the Act specified in Part II of the Fifth Schedule to the Finance (No. 2) Act, 1980 (44 of 1980).

4. The period within which an appeal against any order passed before the appointed day, by—

- (a) the Administrator, Collector of Central Excise or of the Customs or the Appellate Collector of Customs under section 80 of the Act, as it stood immediately before that day; or
- (b) the Administrator under section 81 of the Act, as it stood immediately before that day,

may be filed, shall, without prejudice to the provisions of sub-section (6) of section 81 of the Act, be six months from the date on which the said order is communicated to the Collector of Central Excise or of Customs, or, as the case may be, the other party preferring the appeal.

Explanation.—In this paragraph—

- (i) "Act" means the Gold (Control) Act, 1968, (45 of 1968);
- (ii) "appointed day" means the date of coming into force of the amendments to the Act specified in Part II of the Fifth Schedule to the Finance (No. 2) Act, 1980 (44 of 1980).

[F. No. 341/10/82-TRU]  
R. K. CHAKRABARTI, Dy. Secy.